



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052025-263360
CG-DL-E-24052025-263360

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383]
No. 383]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 23, 2025/ज्येष्ठ 2, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 23, 2025/JYAISTHA 2, 1947

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 मई, 2025

संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1236).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 5914 (भाग 11) : 2025 आई एस ओ 2589 : 2016 चमड़े के भौतिक परीक्षण की पद्धतियाँ भाग 11 मोटाई ज्ञात करना	19 मई 2025	लागू नहीं	लागू नहीं
2	आई एस 5914 (भाग 12) : 2025 आई एस ओ 14268 : 2023 चमड़े के भौतिक परीक्षण की पद्धतियाँ भाग 12 जल वाष्प पारगम्यता ज्ञात करना	19 मई 2025	लागू नहीं	लागू नहीं
3	आई एस 17964 (भाग 3) : 2025 स्वास्थ्य सेवा अनुप्रयोगों में तरल पदार्थ और गैसों के लिए छोटे-बोर कनेक्टर भाग 3 एंटरल अनुप्रयोगों के लिए कनेक्टर (ISO 80369-3 : 2016; संशोधित)	19 मई 2025	लागू नहीं	लागू नहीं
4	आई एस 18750 (भाग 7) : 2025 यूनानी चिकित्सा — पारिभाषिक शब्दावली भाग 7 मूत्रीय तंत्र के रोगों के लिए प्रयुक्त मानकीकृत शब्दावली	19 मई 2025	लागू नहीं	लागू नहीं
5	आई एस 19220 : 2025 आई एस ओ 16192 : 2024 अंतरिक्ष प्रणालियाँ — अंतरिक्ष परियोजनाओं में प्राप्त अनुभव (सीखा सबक) — सिद्धांत और दिशानिर्देश	19 मई 2025	लागू नहीं	लागू नहीं
6	आई एस 19229 : 2025 प्रघात नलिका अधिस्फोटकों — विशिष्टि	19 मई 2025	लागू नहीं	लागू नहीं
7	आई एस 19249 : 2025 आई एस ओ 14222 : 2022 अंतरिक्ष पर्यावरण (प्राकृतिक और कृत्रिम) — पृथ्वी का जमीनी स्तर से ऊपर की ओर का वायुमंडल	19 मई 2025	लागू नहीं	लागू नहीं

8	आई एस 19277 : 2025 आई एस ओ 14452 : 2012 नेटवर्क सेवाएँ बिलिंग — अपेक्षाएँ	19 मई 2025	लागू नहीं	लागू नहीं
9	आई एस 19279 (भाग 1) : 2025 आई एस ओ 10784-1 : 2011 अंतरिक्ष प्रणालियाँ — प्रारंभिक प्रचालन भाग 1 अंतरिक्ष यान प्रारंभन और कमीशनिंग	19 मई 2025	लागू नहीं	लागू नहीं
10	आई एस 19292 : 2025 आई एस ओ 16126 : 2014 अंतरिक्ष प्रणालियाँ — मिशन के बाद सफल निपटान सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष मलबे और उल्कापिंड प्रभावों के खिलाफ मानवरहित अंतरिक्ष यान की उत्तरजीविता का आंकलन	19 मई 2025	लागू नहीं	लागू नहीं
11	आई एस 19295 : 2025 आई एस ओ 30007 : 2010 जहाज़ और समुद्री प्रौद्योगिकी — जहाज़ पुनर्चक्रण के दौरान एस्वेस्टस उत्सर्जन और जोखिम को रोकने के उपाय	19 मई 2025	लागू नहीं	लागू नहीं
12	आई एस 19296 : 2025 आई एस ओ 16548 : 2012 जहाज़ और समुद्री प्रौद्योगिकी — जहाज़ डिज़ाइन — आपातकालीन टोइंग प्रक्रियाओं पर सामान्य मार्गदर्शन	19 मई 2025	लागू नहीं	लागू नहीं

चित्रा गुप्ता, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग एवं ट्रेनिंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./116/2025-26]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th May, 2025

Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1236).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

SCHEDULE

Sl No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. , Year & Title of the Indian Standards to be Withdrawn, if any	Date of Withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 5914 (Part 11) : 2025 ISO 2589 : 2016 Methods of Physical Testing of Leather Part 11 Determination of Thickness	19 May 2025	NA	NA
2	IS 5914 (Part 12) : 2025 ISO 14268 : 2023 Methods of Physical Testing of Leather Part 12 Determination of Water Vapour Permeability	19 May 2025	NA	NA
3	IS 17964 (Part 3) : 2025 Small-Bore Connectors for Liquids and Gases in Healthcare Applications Part 3 Connectors for Enteral Applications (ISO 80369-3 : 2016; MOD)	19 May 2025	NA	NA
4	IS 18750 (Part 7) : 2025 Unani Medicine — Glossary of Terms Part 7 Standardized Terminology Used for Urinary System Diseases	19 May 2025	NA	NA
5	IS 19220 : 2025 ISO 16192 : 2024 Space Systems — Experience Gained in Space Projects (Lessons Learned) — Principles and Guidelines	19 May 2025	NA	NA
6	IS 19229 : 2025 Shock Tube Detonators — Specification	19 May 2025	NA	NA
7	IS 19249 : 2025 ISO 14222 : 2022 Space Environment (Natural and Artificial) — Earth's Atmosphere from Ground Level Upward	19 May 2025	NA	NA

8	IS 19277 : 2025 ISO 14452 : 2012 Network Services Billing — Requirements	19 May 2025	NA	NA
9	IS 19279 (Part 1) : 2025 ISO 10784-1 : 2011 Space Systems — Early Operations Part 1 Spacecraft Initialization and Commissioning	19 May 2025	NA	NA
10	IS 19292 : 2025 ISO 16126 : 2014 Space Systems — Assessment of Survivability of Unmanned Spacecraft Against Space Debris and Meteoroid Impacts to Ensure Successful Post-Mission Disposal	19 May 2025	NA	NA
11	IS 19295 : 2025 ISO 30007 : 2010 Ships and Marine Technology — Measures to Prevent Asbestos Emission and Exposure During Ship Recycling	19 May 2025	NA	NA
12	IS 19296 : 2025 ISO 16548 : 2012 Ships and Marine Technology — Ship Design — General Guidance on Emergency Towing Procedures	19 May 2025	NA	NA

CHITRA GUPTA, Scientist G & DDG (Hallmarking and Training)

[ADVT.-III/4/Exty./116/2025-26]